

T.D - 18-11-12

Recruitment of Data Entry Operators

कृपया ध्यान दें यह अत्यंत महत्वपूर्ण है

R 121733

अपने उत्तर पत्र के साइड 1 पर खाने सं. 5 में अपना परीक्षार्थी क्रमांक* तथा खाने सं. 6 में प्ररूप क्रमांक** (तीन अंक) लिखिये तथा संबंधित अंडाकृतियों को काला रंगिये, अन्यथा आपका उत्तरपत्र जांचा नहीं जा सकता है।

VERY VERY IMPORTANT PLEASE

WRITE AND DARKEN ON SIDE 1 OF YOUR ANSWERSHEET YOUR ROLL NO.* IN BOX NO. 5 AND TEST FORM NO.** (THREE DIGITS) IN BOX NO.6 OTHERWISE YOUR ANSWERSHEET MAY NOT BE ASSESSED.

1. परीक्षार्थी क्रमांक * ROLL NO.*		2. प्रश्नपुस्तिका अनुक्रमांक TEST BOOKLET SERIAL NO.	357323
3. प्रश्नमालिका क्रमांक TEST BATTERY NO.	R 121733	4. प्ररूप क्रमांक ** TEST FORM NUMBER **	333

<p>1. इस पुस्तिका में निम्नलिखित एक प्रश्नावली हैं सामान्य जागृता, सामान्य अंग्रेजी, प्रारंभिक गणित और कम्प्युटर का मूलभूत ज्ञान — प्र.क्र. 1 से 120</p> <p>2. इस प्रश्नावली का उत्तर देने के लिये आपको कुल 2 घंटे का समय दिया जाएगा।</p> <p>3. सिवाय सामान्य अंग्रेजी प्रश्नावली हिन्दी और अंग्रेजी इन दोनों भाषाओं में छपी हुई हैं। हिन्दी रूपान्तर बाँये तरफ के पन्ने पर और अंग्रेजी दाहिने तरफ के पन्ने पर छपे हुए हैं।</p> <p>4. अगर आप गलत उत्तर देंगे तो दंडस्वरूप आपके अंकों में कटौती नहीं की जायेगी।</p> <p>5. रफ काम, यदि आप करना चाहें, तो इस पुस्तिका में ही करना चाहिये न कि उत्तरपत्र पर। इस हेतु हाशिये की अथवा अन्यत्र उपलब्ध खाली जगह का उपयोग कीजिये। अन्य किसी कागज का उपयोग न कीजिये।</p> <p>6. अपने उत्तर अलग उत्तरपत्र पर केवल काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग कर दर्शाइये। उत्तर दर्शाने के लिये उत्तरपत्र में दिये गये अनुदेशों का पालन कीजिये</p> <p>7. आपके उत्तरपत्र में उत्तर दर्शाने के लिये 120 से अधिक उत्तरस्थान हैं। इस पुस्तिका में दिये हुए 120 प्रश्नों के उत्तर देने के लिये केवल पहले 120 उत्तरस्थानों का उपयोग कीजिये।</p> <p>8. जब तक निर्देश न मिले इस पुस्तिका को मत खोलिये। पुस्तिका खोलने का निर्देश मिलने पर पुस्तिका के बाँये किनारे में लगे हुए मुड़े हुए तार निकालने का प्रयास न करें। पेन्सिल के निचले सिरे की सहायता से मुखपृष्ठ को दाहिनी ओर से काट कर खोलिये।</p> <p>9. पुस्तिका खोलते ही जाँच लीजिये कि सभी पृष्ठ जिन पर प्र. 1 से 120 है योग्य प्रकार से छपे हुए हैं और फिर प्रश्नावलियों के उत्तर देना प्रारंभ कीजिये। यदि पुस्तिका दोषपूर्ण हो तो उसी प्रश्नावली प्ररूप क्रमांकवाली दूसरी प्रश्नपुस्तिका से बदलवा लीजिये।</p>	<p>1. This Booklet contains one test as follows : General Awareness, General English, Elementary Mathematics and Fundamental Knowledge of Computer — Q.Nos. 1 to 120</p> <p>2. You will be given an aggregate time of 2 hours to answer the test.</p> <p>3. The test except for General English is printed in both Hindi and English. The Hindi version is printed on the left hand side page and the English version on the right hand side page.</p> <p>4. There will be no penalty for wrong answers marked by you.</p> <p>5. Rough work, if you want to do any, is to be done in this booklet itself and not on the answersheet. For this purpose use the empty space in the margin or anywhere else you find in this booklet. Do not use any other paper.</p> <p>6. Indicate your answers on the separate answer-sheet, using black ball point pen only. Follow the instructions given on the answersheet for indicating your answers.</p> <p>7. Your answersheet contains answer-spaces for answering more than 120 questions. Use only the first 120 answer spaces for answering the 120 questions given in this booklet.</p> <p>8. Do not open the booklet until you are told to do so. When the instruction for opening the booklet is given, do not try to remove the wire staples at the left. Insert the blunt end of your pencil under the cover from the top or the bottom edge and tear open along the right hand edge.</p> <p>9. Immediately after opening the booklet verify that all the pages containing questions from 1 to 120 are properly printed in your booklet and then begin answering the test. In case the booklet is defective get it replaced by another test booklet bearing the same Test Form No.</p>
---	---

केवल कार्यालय के उपयोग हेतु / For office use only

207331

इ
स
कि
ना
रे
से
खो
लि
ए
/
O
P
E
N
A
L
O
N
G
T
H
I
S
E
D
G
E

सामान्य जागृतता, सामान्य अंग्रेजी, प्रारंभिक गणित और कम्प्युटर का मूलभूत ज्ञान

- प्र.1. भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है ?
 (1) नीम (2) पीपल (3) खजूर (4) बरगद (5) आम
- प्र.2. किस सेवा प्रदाताओं को सेवा कर अदा करने से छूट प्राप्त है ?
 (1) विज्ञापन (2) हवाई यात्रा एजेंट (3) एयरपोर्ट सेवाएं (4) निगेटिव लिस्ट (5) आर्कीटेक्ट
- प्र.3. निम्न में से कौन सा संघ शासित क्षेत्र नहीं है ?
 (1) अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (2) चंडीगढ़ (3) गोवा
 (4) दमन एवं दीव (5) दादरा एवं नगर हवेली
- प्र.4. किस राज्य का क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का हिस्सा नहीं है ?
 (1) हरियाणा (2) उत्तराखंड (3) उत्तर प्रदेश (4) राजस्थान (5) पंजाब
- प्र.5. ट्रेन में सीट बुक करने के लिए तत्काल के फार्म में दिया गया पता गलत पाया जाए तो जुर्माने की सूची में कौन सा बाहर रखा गया है ?
 (1) अगले स्टेशन पर उतरा देना (2) रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कारावास
 (3) जुर्माना लगाना (4) सेट ऑफ वार्निंग
 (5) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सजा
- प्र.6. भारत के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है ?
 (1) 28 (2) 37 (3) 35 (4) 38 (5) 39
- प्र.7. राष्ट्र की सशस्त्र सेवाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है ?
 (1) भारत का प्रधानमंत्री (2) भारत का राष्ट्रपति (3) सेना स्टाफ का प्रमुख
 (4) नौसेना स्टाफ का प्रमुख (5) भारत का रक्षा मंत्री
- प्र.8. मंत्रिमंडल में नागरिक उड़डयन मंत्री कौन है ?
 (1) मुकुल रॉय (2) श्री प्रकाश जायसवाल (3) आनंद शर्मा (4) एम. के. अलागिरी (5) अजीत सिंह
- प्र.9. विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला लोकतंत्र कौन सा है ?
 (1) चीन (2) पाकिस्तान (3) युनाइटेड किंगडम (4) भारत (5) संयुक्त राज्य अमरीका
- प्र.10. "ऑफ द ट्रैक" शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है ?
 (1) डॉ. मनमोहन सिंह (2) सोनिया गांधी (3) प्रणब मुखर्जी
 (4) डी. बी. सुब्बाराव (5) अटल बिहारी वाजपेयी
- प्र.11. इन दिनों वित्तीय जगत में 'FII' शब्द की बहुत चर्चा है, इसका पूर्ण रूप क्या है ?
 (1) Financing Indian Investment (2) Financing Indian Investors
 (3) Financing Indian Institutions (4) Financing Institutional Investors
 (5) Foreign Institutional Investors
- प्र.12. भारत की तटीय रेखा कितने किलोमीटर लंबी है ?
 (1) 7517 (2) 9517 (3) 10517 (4) 11517 (5) 12517
- प्र.13. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के EMMC विभाग की भूमिका क्या है ?
 (1) केबल टेलिविजन नेटवर्क विनियमों के उल्लंघन को चेक करना
 (2) अखबारों/पत्रिकाओं में विज्ञापन के उल्लंघन को चेक करना
 (3) संविधान प्रदत्त अधिकारों के उल्लंघन को चेक करना
 (4) डिसप्ले मीडिया द्वारा अभिव्यक्ति के अधिकार के उल्लंघन को चेक करना
 (5) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के उल्लंघन को चेक करना

**GENERAL AWARENESS, GENERAL ENGLISH, ELEMENTARY
MATHEMATICS AND FUNDAMENTAL KNOWLEDGE OF COMPUTER**

- Q.1. Which is the national tree of India _____
(1) Neem (2) Peepal (3) Khajoor (4) Banyan (Bargad) (5) Mango
- Q.2. Which service providers are exempted from payment of Service Tax ?
(1) Advertising (2) Air Travel Agent (3) Airport Services
(4) Negative List (5) Architect
- Q.3. Which one of the following is **not** a union Territory ?
(1) Andaman And Nicobar Islands (2) Chandigarh (3) Goa
(4) Daman and Diu (5) Dadra and Nagar Haveli
- Q.4. The area of which state is not a part of the National Capital Region (NCR) ?
(1) Haryana (2) Uttarakhand (3) Uttar Pradesh (4) Rajasthan (5) Punjab
- Q.5. What is excluded from the list of fines if address given in Tatkal Form for booking seat in a train is found to be false ?
(1) Deboarding at the next station
(2) Imprisonment as per provisions of Railway Act
(3) Imposition of fine
(4) Set of Warning
(5) Punishment under Criminal Procedure Code
- Q.6. What is the total number of states and Union Territories in India ?
(1) 28 (2) 37 (3) 35 (4) 38 (5) 39
- Q.7. Who is the supreme commander of the nation's armed forces ?
(1) Prime Minister of India (2) The President of India
(3) Chief of Army Staff (4) Chief of Naval Staff
(5) Defence Minister of India
- Q.8. Who is the civil aviation minister in the council of ministers ?
(1) Mukul Roy (2) Shriprakash Jaiswal (3) Anand Sharma
(4) M. K. Alagiri (5) Ajit Singh
- Q.9. Which is the most populous democracy in the World ?
(1) China (2) Pakistan (3) United Kingdom
(4) India (5) United States of America
- Q.10. Who wrote the book titled "Off the Track" ?
(1) Dr. Manmohan Singh (2) Sonia Gandhi (3) Pranab Mukherjee
(4) D. B. Subbarao (5) Atal Bihari Vajpai
- Q.11. What is the full form of term "FII" which is much talked about in the Financial World these days ?
(1) Financing Indian Investment (2) Financing Indian Investors
(3) Financing Indian Institutions (4) Financing Institutional Investors
(5) Foreign Institutional Investors
- Q.12. How many kilometers is India's coastline long ?
(1) 7517 (2) 9517 (3) 10517 (4) 11517 (5) 12517
- Q.13. What is the role of EMMC department of Information and Broadcasting ministry ?
(1) To check the violations of the Cable Television Networks Regulations
(2) To check the violation of Advertising in News Papers/Magazines
(3) To check the violation of Constitutional Rights
(4) To check the violation of Right of expression by Display Media
(5) To check the violation of Information Technology Act

- प्र.14. भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है ?
 (1) भारतीय रेल (2) भारतीय सशस्त्र सेना (3) हिन्दुस्तान यूनिवर्सिटी
 (4) भारतीय स्टेट बैंक (5) रिलायंस समूह
- प्र.15. खिलाड़ियों के कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार है ?
 (1) राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार (2) अर्जुन पुरस्कार (3) ध्यान चंद पुरस्कार
 (4) द्रोणाचार्य पुरस्कार (5) महाराजा रणजीत सिंह पुरस्कार
- प्र.16. मांगणीयार नामक समुदाय का उत्पत्ति स्थल राजस्थान का कौनसा जिला है ?
 (1) पाली (2) बारमेर (3) बीकानेर (4) जैसलमेर (5) नागौर
- प्र.17. बांग्लादेश ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के इकतालीस वर्षों के बाद किस भारतीय राजनीतिज्ञ का सम्मान किया है ?
 (1) इंदिरा गांधी (2) संजीव रेड्डी (3) जगजीवन राम (4) नंदिनी सत्पति (5) वाई. बी. चवान
- प्र.18. किस शहर का संबंध शेखावती उत्सव से है ?
 (1) नागौर (2) पाली (3) नवलगढ़ (4) फतेहपुर (5) झालावाड़
- प्र.19. किस निगम ने राजस्थान के औद्योगिक विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है ?
 (1) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लि. (2) राजस्थान वित्त निगम
 (3) राजस्थान लघु उद्योग निगम लि. (4) राजस्थान राज्य सहकारी विपणन संघ लि.
 (5) जिला उद्योग केन्द्र
- प्र.20. अक्टूबर 2012 में दिवंगत प्रसिद्ध निर्माता/निर्देशक द्वारा निर्देशित फिल्म का नाम क्या है ?
 (1) संघर्ष (2) बाँबी (3) कहानी (4) इंग्लिश विंग्लिश (5) धूम
- प्र.21. निम्नलिखित में से कौन सी क्रिकेट प्रतियोगिता BCCI द्वारा आयोजित एक देशी प्रतियोगिता नहीं है ?
 (1) रणजी ट्रॉफी (2) दिलीप ट्रॉफी (3) चैंपियन्स ट्रॉफी (4) ईरानी ट्रॉफी (5) NKP सालवे चेलेंजर ट्रॉफी
- प्र.22. हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन ऑफ राजस्थान हैंडिक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स द्वारा हर वर्ष आयोजित प्रदर्शनी का नाम क्या है ?
 (1) FORHEX मेला (2) STONEMART (3) JAS (4) VASTRA (5) विजन राजस्थान
- प्र.23. अमरीका ने किस आधार पर वर्ष 2012 के लिए भारतीय कालीन आयात को काली सूची में रखा है ?
 (1) बाल श्रम का प्रयोग (2) सिंथेटिक रंगों का प्रयोग (3) सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग
 (4) डिजाइन संबंधी मसले (5) USD कमजोर है
- प्र.24. अढ़ाई-दिन का-झोंपड़ा राजस्थान के किस शहर में है ?
 (1) गंगानगर (2) अलवर (3) भरतपुर (4) सीकर (5) अजमेर
- प्र.25. किराडु मंदिर राजस्थान के किस जिले में है ?
 (1) बूंदी (2) चुरू (3) नागौर (4) बारमेर (5) पाली
- प्र.26. हाल ही में किस एयरलाइन का लाइसेंस रद्द किया गया है ?
 (1) इंडिगो (2) गो एयर (3) जेट (4) किंगफिशर (5) स्पाइसजेट
- प्र.27. NCR प्लानिंग बोर्ड ने राजस्थान के किस शहर को बतौर काउंटर मैनेज क्षेत्र अभिनिर्धारित किया है ?
 (1) कोटा (2) अलवर (3) शहपुरा (4) भिलवाड़ा (5) भरतपुर
- प्र.28. राजस्थान के किस शहर का कुछ हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है ?
 (1) कोटा (2) अलवर (3) शहपुरा (4) भिलवाड़ा (5) भरतपुर
- प्र.29. कितनी उम्र तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा हेतु बालक का अधिकार सुरक्षित होता है ?
 (1) 21 वर्ष (2) 15 वर्ष (3) 14 वर्ष (4) 10 वर्ष (5) 6 वर्ष
- प्र.30. मंत्रिमंडल में रेलमंत्री कौन है ?
 (1) मुकुल राय (2) मल्लिकार्जुन खरगे (3) दिनेश त्रिवेदी (4) सी. पी. जोशी (5) जी. के. वासन

- Q.14.** Which is the largest employer in India ?
 (1) Indian Railways (2) Indian Armed Forces (3) Hindustan Unilever
 (4) State bank of India (5) Reliance Group
- Q.15.** Which of the following awards is meant for coaches of the sportsmen ?
 (1) Rajiv Gandhi Khel Ratna Award (2) Arjuna Award
 (3) Dhyan Chand Award (4) Dronacharya Award
 (5) Maharaja Ranjeet Singh Award
- Q.16.** Which District of Rajasthan is the origin of The community known as Manganiyar ?
 (1) Pali (2) Barmer (3) Bikaner (4) Jaisalmer (5) Nagaur
- Q.17.** Which Indian Politician has been honoured by Bangla Desh after Forty-one years it won independence ?
 (1) Indira Gandhi (2) Sanjeeva Reddy (3) Jagjeevan Ram
 (4) Nandini Satpathy (5) Y. B. Chavan
- Q.18.** Which city is associated with Shekhawati Festival ?
 (1) Nagaur (2) Pali (3) Navalgarh (4) Fatehpur (5) Jhalawar
- Q.19.** Which Corporation has played a catalytic role in the industrial development of Rajasthan ?
 (1) Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Ltd.
 (2) Rajasthan Finance Corporation
 (3) Rajasthan Small Industries Corporation Ltd.
 (4) Rajasthan State Co-Operative Marketing Federation Ltd.
 (5) District Industries Centers
- Q.20.** What is the name of the film directed by a well known Producer/Director who passed away in Oct 2012 ?
 (1) Sangharsh (2) Bobby (3) Kahani (4) English Vinglish (5) Dhoom
- Q.21.** Which of the following cricket competitions is not a Domestic Competition organized by BCCI ?
 (1) Ranji Trophy (2) Duleep Trophy (3) Champions Trophy
 (4) Irani Trophy (5) NKP Salve Challenger Trophy
- Q.22.** What is the name of the exhibition organized by Federation of Rajasthan Handicraft Exporters every year in Jaipur for promoting Handicrafts ?
 (1) FORHEX fair (2) STONEMART (3) JAS (4) VASTRA (5) Vision Rajasthan
- Q.23.** What is the ground on which United States has blacklisted Indian Imports of Carpets for the year 2012 ?
 (1) Using Child Labour (2) Using synthetic colours (3) Using Synthetic Fibre
 (4) Design Issues (5) USD is weak
- Q.24.** In which city of Rajasthan, ADHAI – DIN KA- JHONPRA is situated ?
 (1) Ganganagar (2) Alwar (3) Bharatpur (4) Sikar (5) Ajmer
- Q.25.** In which District of Rajasthan Kiradu Temples are situated ?
 (1) Bundi (2) Churu (3) Nagaur (4) Barmer (5) Pali
- Q.26.** The license of which Airline has been suspended recently ?
 (1) Indigo (2) Goair (3) Jet (4) Kingfisher (5) Spicejet
- Q.27.** Which city of Rajasthan has been identified by The NCR Planning Board as counter magnet area ?
 (1) Kota (2) Alwar (3) Shahpura (4) Bhilwara (5) Bharatpur
- Q.28.** Which city of Rajasthan shares some of its area as a part of National Capital Region ?
 (1) Kota (2) Alwar (3) Shahpura (4) Bhilwara (5) Bharatpur
- Q.29.** Up-to which age is the right of a child to free and compulsory education protected ?
 (1) 21 years (2) 15 years (3) 14 years (4) 10 years (5) 6 years
- Q.30.** Who is the Railway Minister in the Cabinet ?
 (1) Mukul Roy (2) Mallikarjun Kharge (3) Dinesh Trivedi
 (4) C. P. Joshi (5) G. K. Vasani

Q.31-40. Read the following passage carefully and answer the question. Certain words are printed in **bold** to help you locate them while answering some of the questions :

The wife of the headman of a village died soon after giving birth to a baby boy. The headman was inconsolable but was persuaded by his family and friends to marry again so that the child would have someone to look after him. Fortunately, his second wife turned out to be a kind hearted and sensible woman who gave the child all the love and care he would have received from his own mother. After a few years she gave birth to two more sons, but her affection for the eldest never diminished. She treated all three boys alike and the two younger ones never realised that they had a stepbrother.

When the headman passed away, the widow **entrusted** all the responsibilities of household and fields to the eldest son. He managed the responsibilities so well that the family prospered. This made the neighbours envious. One day, the neighbours told the widow's sons the truth about their eldest brother and advised them to drive him away lest he should **deprive** them of their share of the property. The younger brothers were shocked at the **revelation** and were frightened by the prospect of losing their share of the property. They decided to murder their eldest brother to get rid of the problem. When they told their mother about what they planned to do she said to them, "Don't bloody your hands, I will get rid of him for you."

That night, when everybody was asleep, she suddenly jumped out of the bed and started shouting, "Snake! Snake!" "Where ? Where did you see it mother ?" asked the eldest son, getting up from his mat. "Alas," said the widow, "I saw it disappearing in your stomach."

The eldest son turned pale. From that day onwards he lost all appetite for food and would lie on his mat whole day long. Soon he became so weak that he could not even sit up on his mat. The neighbours rejoiced and took advantage of the situation. They built a wall across the widow's courtyard and claimed a part of the house as their own. In the fields they shifted their boundaries to enclose large portions of the widow's lands. The younger sons' could not deal with the situation and one day they said to their mother, "If our elder brother was not bed-ridden such terrible things would not have happened to us."

The widow kept quiet then but in the dead of the night she started shouting, "Snake! Snake!" Everyone woke up. "Where ? Where did you see it mother ?" asked the eldest son weakly. "Son, I saw it coming out of your stomach," replied the widow, "It disappeared in the darkness." From that day the condition of the eldest son started improving. Soon he was able to walk up to the courtyard where he saw a new wall. "Who has built this ?" He thundered. The neighbours came running and meekly pulled it down. The following week he went to the family fields and seeing the new boundaries shouted, "Who has done this ?" The neighbours trembled with fear and quickly vacated the land they had grabbed. Since then the widow and her three sons lived in peace and harmony.

Q.31. Why were the neighbours envious ?

- (1) The eldest son managed his responsibilities so well that the family prospered
- (2) The younger sons had more money than the neighbours
- (3) The younger sons prospered without any merit
- (4) The eldest son had more fields than the neighbours
- (5) The eldest son used the neighbours' strategy and prospered more than them

Q.32. Why did the village headman agree to remarry ?

- (1) He felt very lonely
- (2) His son felt very lonely and longed for a mother
- (3) He was persuaded by his family and friends to marry again
- (4) He knew that his wife would have wanted him to remarry
- (5) He wanted more children

- Q.33.** Which of the following is an appropriate title for the passage ?
- (1) The Envious Stepmother
 - (2) The Headman and His Wife
 - (3) The Forgotten Snake
 - (4) The Widow and Her Three Sons
 - (5) The Neighbours and Their Tyranny
- Q.34.** When did the younger brothers realise the importance of their eldest brother ?
- (1) When their eldest brother could not recover from his illness
 - (2) When their mother lost faith in them
 - (3) When their eldest brother decided to move out of the house
 - (4) When their mother was upset about her eldest son's ill health
 - (5) When they were unable to handle household responsibilities
- Q.35.** How did the condition of the eldest brother improve ?
- (1) He was provided medical assistance
 - (2) The neighbours' tyranny gave him the will to improve
 - (3) His mother looked after him dearly until he improved
 - (4) He believed that the snake had gone out of his stomach
 - (5) The snake had actually gone out of his stomach
- Q.36.** How did the widow solve the younger sons' problem ?
- (1) By making the eldest son believe that there was a snake in his stomach
 - (2) By killing the eldest son
 - (3) By throwing the eldest son out of the house
 - (4) By giving the responsibilities of the household and the fields to her younger sons
 - (5) By asking her younger sons to bloody their hands and kill her eldest son
- Q.37.** What was the neighbour's advice to the stepbrothers' ?
- (1) Kill the eldest brother to gain his share of the property
 - (2) Make the eldest brother fall ill
 - (3) Confront the eldest brother about his real mother
 - (4) Drive away the eldest brother or else he would deprive them of their share in the property
 - (5) Ask their mother to get rid of her step son by depriving him his share in the property
- Q.38-40.** Choose the word which is most nearly the **SAME** in meaning as the word printed in **bold** as used in the passage.
- Q.38.** **deprive** : (1) force (2) seize (3) bestow (4) compel (5) deny
- Q.39.** **entrusted** : (1) confided (2) enrolled (3) allowed (4) gave (5) charged
- Q.40.** **revelation** : (1) insistence (2) disclosure (3) secrecy (4) inspiration (5) affirmation
- Q.41-45.** Read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, the answer is (5) i.e. 'No error'. (Ignore errors of punctuations, if any).
- Q.41.** Amrita was happy / because her father / promise to gift a /
 (1) (2) (3)
 wooden rocking pony on her birthday. No error
 (4) (5)
- Q.42.** Some writers have define / introverts as people whose / energy expands through reflection /
 (1) (2) (3)
 and reduces through interaction. No error
 (4) (5)
- Q.43.** Tiger has a muscular / body with particularly / powerful forelimbs and / a large head. No error
 (1) (2) (3) (4) (5)

- Q.44. Psychology is a / discipline that involves / an scientific study of / mind and behaviour. No error
 (1) (2) (3) (4) (5)
- Q.45. With the exception / of one decades, population / in India has continued to grow /
 (1) (2) (3)
 at an alarming pace. No error
 (4) (5)
- Q.46-50. Each sentence below has a blank; each blank indicates that something has been omitted. Choose the word that best fits the meaning of the sentence as a whole.
- Q.46. Reshma was _____ because no one turned up for her birthday and she was left all alone.
 (1) happy (2) apologetic (3) delighted (4) sorry (5) upset
- Q.47. Today teenagers face a lot of peer pressure as a _____ of which they end up indulging in criminal activities.
 (1) impact (2) kind (3) result (4) possibility (5) reason
- Q.48. Prices of all goods and services have increased _____ more than the estimated price as per the inflation rate.
 (1) many (2) very (3) although (4) much (5) heavily
- Q.49. Rohan was undergoing treatment for anaemia in childhood and _____ then is afraid of doctors.
 (1) by (2) so (3) now (4) before (5) since
- Q.50. Shaurya is a five year old kid who is very creative _____ intelligent for his age.
 (1) but (2) along (3) and (4) with (5) not
- Q.51-55. In each question below, four words printed in **bold** type are given. These are numbered (1), (2), (3) and (4). One of these words printed in bold might either be **wrongly spelt or inappropriate** in the context of the sentence. Find out the word that is inappropriate or wrongly spelt, if any. The number of the word is your answer. If the words printed in **bold** are correctly spelt and appropriate in the context of the sentence then mark (5) i.e. 'All Correct' as your answer.
- Q.51. Children today have low **immunity** and are **week** due to lack of **nutrition** and poor eating **habits**.
 (1) (2) (3) (4) All correct (5)
- Q.52. Shankar was a rich **merchent** and would **donate** a large **sum** to **charity** every year. All correct
 (1) (2) (3) (4) (5)
- Q.53. Drinking is one of those **things** that starts **innocently** but **devastates** a person **completely**.
 (1) (2) (3) (4) All correct (5)
- Q.54. There are so many **insuranse** plans and **policies** in the **market** today that people are **confused**.
 (1) (2) (3) (4) All correct (5)
- Q.55. Pooja was a **shy** girl who sat on the last **bench** and due to her **plane** looks she was never **noticed**.
 (1) (2) (3) (4) All correct (5)

Q.56-60. Rearrange the following six sentences / group of sentences (A), (B), (C), (D), (E) and (F) in the proper sequence to form a meaningful paragraph; then answer the questions given below them.

- (A) Gopal, the Jester, immediately disagreed. He said that businessmen were cleverer and offered to prove it.
- (B) The scholar, overjoyed, asked for 20 gold coins and when he was paid the amount, allowed the barber to shave his upper lip clean.
- (C) A few days later Gopal called a scholar to the palace and told him that the king wanted his moustache and asked him to name his price.
- (D) Gopal gave him the money but when the barber approached him, the businessman pushed him away saying, "The moustache now belongs to the king! I won't let anyone touch it!" And with that he turned around and walked out of the palace.
- (E) King Krishna Chandra once expressed the opinion that scholars were the cleverest men in his kingdom.
- (F) Next, a businessman was sent for and when told that the king wanted his moustache he claimed 20,000 gold coins for it.

Q.56. Which of the following should be the **FIRST** sentence after the rearrangement ?

- (1) A (2) B (3) C (4) D (5) E

Q.57. Which of the following should be the **FIFTH** sentence after the rearrangement ?

- (1) A (2) B (3) C (4) E (5) F

Q.58. Which of the following should be the **FOURTH** sentence after the rearrangement ?

- (1) A (2) B (3) C (4) D (5) E

Q.59. Which of the following should be the **SECOND** sentence after the rearrangement ?

- (1) A (2) D (3) C (4) B (5) E

Q.60. Which of the following should be the **SIXTH (LAST)** sentence after the rearrangement ?

- (1) A (2) B (3) D (4) E (5) F

प्र.61-80. निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नचिह्न (?) के स्थान पर क्या आयेगा ?

- प्र.61. $38 \times 51 \div 6 + (8)^3 = ?$
(1) 833 (2) 818 (3) 845 (4) 838 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.62. 450 के 28% का $\frac{2}{3} = ?$
(1) 84 (2) 88 (3) 86 (4) 83 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.63. $(3000 + 231) \div 9 = ? + 122$
(1) 359 (2) 238 (3) 357 (4) 237 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.64. 444 के $\frac{1}{2}$ का $\frac{3}{5} = ?$
(1) 133.2 (2) 132.3 (3) 133.8 (4) 138.3 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.65. $23.45 + 451.29 + 1222.98 = ? + 788.75$
(1) 909.37 (2) 908.97 (3) 901.57 (4) 905.97 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.66. $(83 \times 4) + (17 \times 12) = ?$
(1) 563 (2) 535 (3) 546 (4) 533 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.67. $2\frac{3}{5} + 3\frac{2}{3} + 5\frac{1}{3} = ?$
(1) $11\frac{3}{5}$ (2) $13\frac{3}{5}$ (3) $11\frac{2}{5}$ (4) $11\frac{2}{15}$ (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.68. $4555 \div 25 \times ? = 2186.4$
(1) 13 (2) 15 (3) 12.8 (4) 14.6 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.69. $3455 + 1212 + 3884 = 5212 + ?$
(1) 3393 (2) 3333 (3) 3339 (4) 3329 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.70. (30×19) के 40% का $\frac{3}{5} = ?$
(1) 136.8 (2) 133.9 (3) 141.8 (4) 139.5 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.71. 552 का 35% + 47.8 = ?
(1) 245 (2) 243 (3) 241 (4) 239 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.72. $\sqrt[3]{12167} + \sqrt{169} = (?)^2$
(1) 36 (2) 6 (3) 8 (4) $(36)^2$ (5) $\sqrt{6}$
- प्र.73. $(4 \times 4)^2 \times (16 \times 4)^3 \div 1024 = (4)^?$
(1) 5 (2) 8 (3) 7 (4) 9 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.74. $554 + 84 \div 12 + 30 = ?$
(1) 515 (2) 595 (3) 556 (4) 591 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य

Q.61-80. What will come in place of the question mark (?) in the following questions ?

- Q.61. $38 \times 51 \div 6 + (8)^3 = ?$
(1) 833 (2) 818 (3) 845 (4) 838 (5) Other than those given as options
- Q.62. $\frac{2}{3}$ rd of 28% of 450 = ?
(1) 84 (2) 88 (3) 86 (4) 83 (5) Other than those given as options
- Q.63. $(3000 + 231) \div 9 = ? + 122$
(1) 359 (2) 238 (3) 357 (4) 237 (5) Other than those given as options
- Q.64. $\frac{3}{5}$ th of $\frac{1}{2}$ of 444 = ?
(1) 133.2 (2) 132.3 (3) 133.8 (4) 138.3 (5) Other than those given as options
- Q.65. $23.45 + 451.29 + 1222.98 = ? + 788.75$
(1) 909.37 (2) 908.97 (3) 901.57 (4) 905.97 (5) Other than those given as options
- Q.66. $(83 \times 4) + (17 \times 12) = ?$
(1) 563 (2) 535 (3) 546 (4) 533 (5) Other than those given as options
- Q.67. $2\frac{3}{5} + 3\frac{2}{3} + 5\frac{1}{3} = ?$
(1) $11\frac{3}{5}$ (2) $13\frac{3}{5}$ (3) $11\frac{2}{5}$ (4) $11\frac{2}{15}$ (5) Other than those given as options
- Q.68. $4555 \div 25 \times ? = 2186.4$
(1) 13 (2) 15 (3) 12.8 (4) 14.6 (5) Other than those given as options
- Q.69. $3455 + 1212 + 3884 = 5212 + ?$
(1) 3393 (2) 3333 (3) 3339 (4) 3329 (5) Other than those given as options
- Q.70. $\frac{3}{5}$ th of 40% of $(30 \times 19) = ?$
(1) 136.8 (2) 133.9 (3) 141.8 (4) 139.5 (5) Other than those given as options
- Q.71. 35% of $552 + 47.8 = ?$
(1) 245 (2) 243 (3) 241 (4) 239 (5) Other than those given as options
- Q.72. $\sqrt[3]{12167} + \sqrt{169} = (?)^2$
(1) 36 (2) 6 (3) 8 (4) $(36)^2$ (5) $\sqrt{6}$
- Q.73. $(4 \times 4)^2 \times (16 \times 4)^5 \div 1024 = (4)^?$
(1) 5 (2) 8 (3) 7 (4) 9 (5) Other than those given as options
- Q.74. $554 + 84 \div 12 + 30 = ?$
(1) 515 (2) 595 (3) 556 (4) 591 (5) Other than those given as options

- प्र.75. $\sqrt{1444} - \sqrt{529} = ?$
 (1) 14 (2) 15 (3) 18 (4) 13 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.76. $138956 + 129985 - 102278 = ?$
 (1) 166665 (2) 166636 (3) 166366 (4) 166663 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.77. $\sqrt{60 + 60 - 12 + 13} = ?$
 (1) 13 (2) 11 (3) 12 (4) 14 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.78. $\frac{119}{128} \times \frac{12}{17} \times \frac{8}{9} = ?$
 (1) $\frac{7}{15}$ (2) $\frac{7}{13}$ (3) $\frac{11}{12}$ (4) $\frac{7}{12}$ (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.79. 800 का 12% + 60 का 105% = ?
 (1) 153 (2) 155 (3) 159 (4) 157 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.80. $(18 + 32) - (345 - 338)^2 = ?$
 (1) 2 (2) 5 (3) 3 (4) 7 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.81. 300 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौनसी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ?
 (1) 21 (2) 22 (3) 36 (4) 24 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.82. 4 पेन और 6 पेंसिल की मिलकर कीमत ₹ 58/- है। 10 पेन और 15 पेंसिल की मिलकर कीमत क्या होगी ?
 (1) ₹ 140/- (2) ₹ 145/- (3) ₹ 135/- (4) निर्धारित नहीं किया जा सकता (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.83. ₹ 5,500/- की राशि पर 3 वर्ष के बाद 12 प्र.श.प्र.व. की दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा ?
 (1) ₹ 1900/- (2) ₹ 1988/- (3) ₹ 1990/- (4) ₹ 1980/- (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.84. एक स्कूटर की गति एक ट्रक की गति से $\frac{1}{4}$ है। 7 घंटे में ट्रक 364 किमी तय करता है। 65 किमी की दूरी तय करने में स्कूटर को कितने घंटे लगेंगे ?
 (1) 5 घंटे (2) 3 घंटे (3) 7 घंटे (4) 6 घंटे (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.85. एक कैंटीन में दो दिन में 6 किलो गेहूं के आटे का उपयोग होता है। 15 दिन में वे कितने आटे का उपयोग करेंगे ?
 (1) 48 किग्रा (2) 90 किग्रा (3) 95 किग्रा (4) 43 किग्रा (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.86. एक आदमी ने 8 किग्रा चावल ₹ 28/- प्रति किलो की दर से और 5 किग्रा चीनी ₹ 18/- प्रति किलो की दर से खरीदी। कुल कितनी राशि खर्च हुई है ?
 (1) ₹ 316/- (2) ₹ 318/- (3) ₹ 314/- (4) ₹ 320/- (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.87. $(59)^2$ में से $(15)^2$ घटाने पर शेष क्या होगा ?
 (1) 111 (2) 108 (3) 106 (4) 104 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.88. अनिता की मासिक आय विशाल की मासिक आय का $\frac{3}{4}$ है। विशाल की मासिक आय ₹ 26,000/- है। अनिता की वार्षिक आय क्या है ?
 (1) ₹ 2,34,000/- (2) ₹ 2,33,000/- (3) ₹ 2,35,000/-
 (4) ₹ 2,34,500/- (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.89. स्कोरों के निम्नलिखित सेट के औसत का पता लगाइए।
 45, 37, 12, 62, 70, 26
 (1) 44 (2) 45 (3) 38 (4) 43 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.90. सतत पांच संख्याओं का योग 175 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है ?
 (1) 73 (2) 72 (3) 70 (4) 69 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य

- Q.75. $\sqrt{1444} - \sqrt{529} = ?$
 (1) 14 (2) 15 (3) 18 (4) 13 (5) Other than those given as options
- Q.76. $138956 + 129985 - 102278 = ?$
 (1) 166665 (2) 166636 (3) 166366 (4) 166663 (5) Other than those given as options
- Q.77. $\sqrt{60 + 60 - 12 + 13} = ?$
 (1) 13 (2) 11 (3) 12 (4) 14 (5) Other than those given as options
- Q.78. $\frac{119}{128} \times \frac{12}{17} \times \frac{8}{9} = ?$
 (1) $\frac{7}{15}$ (2) $\frac{7}{13}$ (3) $\frac{11}{12}$ (4) $\frac{7}{12}$ (5) Other than those given as options
- Q.79. $12\% \text{ of } 800 + 105\% \text{ of } 60 = ?$
 (1) 153 (2) 155 (3) 159 (4) 157 (5) Other than those given as options
- Q.80. $(18 + 32) - (345 - 338)^2 = ?$
 (1) 2 (2) 5 (3) 3 (4) 7 (5) Other than those given as options
- Q.81. What is the least number that can be added to 300 to make it a perfect square?
 (1) 21 (2) 22 (3) 36 (4) 24 (5) Other than those given as options
- Q.82. The cost of 4 pens and 6 pencils together is ₹ 58/- What would be the cost of 10 pens and 15 pencils together?
 (1) ₹ 140/- (2) ₹ 145/- (3) ₹ 135/-
 (4) Cannot be determined (5) Other than those given as options
- Q.83. What would be the simple interest obtained on an amount of ₹ 5,500/- at the rate of 12 p.c.p.a after 3 years?
 (1) ₹ 1900/- (2) ₹ 1988/- (3) ₹ 1990/- (4) ₹ 1980/- (5) Other than those given as options
- Q.84. The speed of a scooter is $\frac{1}{4}$ th the speed of a truck. The truck covers 364 kms in 7 hours. How many hours will the scooter take to cover a distance of 65 kms.?
 (1) 5 hours (2) 3 hours (3) 7 hours (4) 6 hours (5) Other than those given as options
- Q.85. A canteen uses 6 kgs of wheat flour in two days. How much will they use in 15 days?
 (1) 48 kgs (2) 90 kgs (3) 95 kgs (4) 43 kgs (5) Other than those given as options
- Q.86. A man bought 8 kgs of rice at the rate of ₹ 28/- per kg and 5 kgs of sugar at the rate of ₹ 18/- per kg. What was the total amount he spent?
 (1) ₹ 316/- (2) ₹ 318/- (3) ₹ 314/- (4) ₹ 320/- (5) Other than those given as options
- Q.87. If $(15)^3$ is subtracted from $(59)^2$. What will be the remainder?
 (1) 111 (2) 108 (3) 106 (4) 104 (5) Other than those given as options
- Q.88. Anita's monthly income is $\frac{3}{4}$ th of Vishal's monthly income. Vishal's monthly income is ₹ 26,000/-. What is Anita's yearly income?
 (1) ₹ 2,34,000/- (2) ₹ 2,33,000/- (3) ₹ 2,35,000/-
 (4) ₹ 2,34,500/- (5) Other than those given as options
- Q.89. Find the average of the following set of scores :
 45, 37, 12, 62, 70, 26
 (1) 44 (2) 45 (3) 38 (4) 43 (5) Other than those given as options
- Q.90. The sum of five consecutive numbers is 175. What is the sum of the largest number and the smallest number?
 (1) 73 (2) 72 (3) 70 (4) 69 (5) Other than those given as options

- प्र.91. एडिटिंग मोड में, टूल बार पर शब्द/टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद B क्लिक किया जाए तो सारा सिलेक्शन _____ में बदल जाता है।
 (1) इटैलिक्स (2) अंडरलाइन्ड (3) इटैलिक्स व अंडरलाइन्ड (4) कलर्ड (5) बोल्ड
- प्र.92. शुरू में ही वेब पेज या लोकल फाइल के अपने आप लोड हो जाने को _____ कहते हैं।
 (1) होम पेज (2) बाउजर पेज (3) सर्च पेज (4) बुक मार्क (5) स्टार्ट पेज
- प्र.93. ई-मेल एड्रेस ISP से प्रयोक्ता के नाम को _____ सिंबल का प्रयोग करने से अलग करते हैं।
 (1) & (2) @ (3) % (4) ★ (5) #
- प्र.94. किसी एक समय में कितने डाकुमेंट खुले रह सकते हैं ?
 (1) तीन से अधिक नहीं (2) केवल एक
 (3) आपरेटिंग सिस्टम की सीमाओं के अनुसार (4) टास्क बार जितना दिखा सकता है उससे ज्यादा नहीं
 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.95. विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लिकेशन और डाकुमेंट _____ द्वारा निरूपित होते हैं।
 (1) प्रतीक (2) लेबल (3) ग्राफ (4) आइकन (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.96. डाइरेक्टरी के भीतर की डाइरेक्टरी को _____ कहते हैं।
 (1) मिनी डाइरेक्टरी (2) जूनियर डाइरेक्टरी (3) पार्ट डाइरेक्टरी
 (4) स्पेशल डाइरेक्टरी (5) सब डाइरेक्टरी
- प्र.97. उस ब्लिंकिंग पाइंट को क्या कहते हैं जो मानिटर पर आपकी पोजीशन दर्शाता है ?
 (1) ब्लिंकर (2) कर्सर (3) कॉजर (4) पाइंटर (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.98. _____ कंप्यूटर को बताता है कि घटकों का प्रयोग कैसे किया जाए ?
 (1) युटिलिटी (2) नेटवर्क (3) एप्लिकेशन प्रोग्राम
 (4) आपरेटिंग सिस्टम (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.99. उस सिस्टम को क्या कहते हैं जिससे प्रयोक्ता और आपरेटिंग सिस्टम के बीच सरलता और दक्षता से इंटरैक्शन हो पाता है ?
 (1) यूजर इंटरफेस (2) लैंग्वेज ट्रांसलेटर (3) प्लेटफार्म (4) स्क्रीन सेवर (5) आइकन
- प्र.100. MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप अपनी व्यक्तिगत फाइलें/फोल्डर _____ में रख सकते हैं।
 (1) माई फोल्डर (2) नेटवर्क कनेक्शन्स (3) माई फाइल्स (4) माई टेक्स्ट (5) माई डाकुमेंट्स
- प्र.101. प्रयोक्ता को आपरेशन की दृष्टि से सुविधाजनक सिस्टम _____ कहलाता है।
 (1) यूजर फ्रेंडली (2) इनफार्मेशन (3) वर्ड प्रोसेसिंग
 (4) आइकन (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.102. आंकिक और सांख्यिकीय गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन निम्न में से कौन सा होगा ?
 (1) डाटाबेस (2) डाकुमेंट प्रोसेसर (3) ग्राफिक्स पैकेज (4) प्रेजेंटेशन (5) स्प्रेडशीट
- प्र.103. किसी सॉफ्टवेयर के _____ पर एक्जीक्यूट किए जा सकने वाले कमांड और ऑप्शन्स की सूची प्रदर्शित होती है ?
 (1) मेनू बार (2) टूल बार (3) टाइटल बार (4) फार्मूला बार (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.104. किसी मौजूदा डाकुमेंट को भिन्न नाम से सेव करना हो तो क्या करना पड़ता है ?
 (1) डाकुमेंट को फिर टाइप करें और भिन्न नाम दें
 (2) सेव ऐज कमांड का प्रयोग करें
 (3) मूल डाकुमेंट को नए डाकुमेंट में कॉपी पेस्ट करें और फिर सेव करें
 (4) डाकुमेंट को भिन्न स्थान पर कॉपी करने के लिए विंडोज एक्सप्लोरर का प्रयोग करें और फिर इसे री-नेम करें
 (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य

- Q.91.** Under editing mode, on the tool bar, clicking B after selecting the word/text, converts the entire selection into _____
 (1) Italics (2) Underlined (3) Italics and Underlined (4) Coloured (5) Bold
- Q.92.** The webpage or local file that is automatically loaded at the start is called _____
 (1) Home Page (2) Browser page (3) Search Page
 (4) Bookmark (5) Start Page
- Q.93.** E-mail addresses separate the user name from the ISP using the _____ symbol
 (1) & (2) @ (3) % (4) ★ (5) #
- Q.94.** How many different documents can you have opened at any one time?
 (1) No more than three
 (2) Only one
 (3) as per the limitations of the operating system
 (4) No more than your Taskbar can display
 (5) Other than those given as options
- Q.95.** Various applications and documents are represented on the Windows desktop by _____
 (1) Symbols (2) Labels (3) Graphs (4) Icons (5) Other than those given as options
- Q.96.** A directory within a directory is called _____
 (1) Mini Directory (2) Junior Directory (3) Part Directory
 (4) Special Directory (5) Sub Directory
- Q.97.** The blinking point which shows your position on the monitor is called _____
 (1) Blinker (2) Cursor (3) Causer
 (4) Pointer (5) Other than those given as options
- Q.98.** The _____ tells the computer how to use its components
 (1) utility (2) network (3) application program
 (4) operating system (5) Other than those given as options
- Q.99.** A system that allows simple and efficient interaction between the user and the operating system is called _____
 (1) user interface (2) language translator (3) platform
 (4) screen saver (5) icon
- Q.100.** On MS Windows Operating System you can keep your personal files/folders in _____
 (1) My folder (2) Network Connections (3) My Files
 (4) My Text (5) My Documents
- Q.101.** A system which is operationally convenient to the user is called _____
 (1) user friendly (2) information (3) word processing
 (4) icon (5) Other than those given as options
- Q.102.** Which one of the following software applications would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculations ?
 (1) Database (2) Document processor (3) Graphics package
 (4) Presentation (5) Spreadsheet
- Q.103.** On the _____ of a software, lists of executable commands and options are displayed.
 (1) menu bar (2) tool bar (3) title bar (4) formula bar (5) Other than those given as options
- Q.104.** In order to save an existing document with a different name you need to _____
 (1) Retype the document and give it a different name
 (2) Use the Save as command
 (3) Copy and paste the original document to a new document and then save
 (4) Use Windows Explorer to copy the document to a different location and then rename it
 (5) Other than those given as options

- प्र.105. सिस्टम/डिस्क कंटेंट जिसे यूजर द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता है उसे कहते हैं _____
 (1) मैमरी-ओन्ली (2) राइट-ओन्ली मैमरी (3) बाय-रेडी मैमरी
 (4) रन-ओन्ली मैमरी (5) रीड-ओन्ली मैमरी
- प्र.106. अन्य एक्सेल प्रयोक्ताओं के साथ डाकुमेंट पर मिलकर काम करना _____ कहलाता है।
 (1) शेयरिंग (2) मर्जिंग (3) कोलाबोरेंटिंग (4) रूटिंग (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.107. मानीटर, प्रिन्टर और स्कैनर जैसे पेरिफरल डिवाइसेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपैटिबल बनाने वाले सॉफ्टवेयर को कहते हैं।
 (1) ड्राइवर (2) यूटिलिटी (3) इंटरफेस (4) मैनेजर (5) ऐक्टिवेटर
- प्र.108. करंटली ओपरेशनल और यूजर को अन्य कार्य चालू रखने देने वाला प्रोग्राम _____ में रनिंग कहलाता है।
 (1) यूजर सेशन (2) कर्नेल (3) बैकग्राउंड (4) फोरग्राउंड (5) बैकस्टेज
- प्र.109. क्विक एक्सेस टूलबार पर _____ बटन फाइल के प्रिवियस स्टेटस को रिटर्न करते हुए आपकी अंतिम कमांड कैंसल करने देता है।
 (1) सर्च (2) कट (3) डाक्यूमेंट (4) अनडु (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.110. बिना केबल के प्रयोग के दो डिवाइसों को जोड़ने वाले सिस्टम को कहते हैं _____
 (1) डिस्ट्रिब्यूटेड सिस्टम (2) वायरलेस सिस्टम (3) सेंट्रलाइज्ड सिस्टम
 (4) ओपन सोर्स सिस्टम (5) स्कैटर्ड सिस्टम
- प्र.111. कॉलम और पंक्ति के इंटरसेक्शन पाइंट को रिप्रेजेंट करने वाले स्प्रेडशीट में प्रत्येक छोटे आयत को _____ कहते हैं।
 (1) टैब (2) सेल (3) बॉक्स (4) रेंज (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.112. हेडर में पेज नंबर एंटर करने के लिए इनसर्ट टैब पर _____ बटन क्लिक कीजिए।
 (1) डिस्प्ले नंबर (2) एड पेज नंबर (3) हेडर नंबरिंग
 (4) इनसर्ट पेज नंबर (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.113. यदि आप ऐसा शब्द टाइप करें जो वर्ड की डिक्शनरी से मैच न करता हो तो शब्द के नीचे _____ लहरदार अघोरेखा आ जाती है।
 (1) लाल रंग की (2) हरे रंग की (3) नीले रंग की (4) काले रंग की (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.114. उस कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को सीमित कर सकता है ?
 (1) डिसीज (2) टारपीडो (3) हरीकेन (4) वाइरस (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.115. _____ ब्रोडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का शेयरिंग करने देता है।
 (1) हब (2) एडेप्टर (3) रूटर (4) स्विच (5) प्लग
- प्र.116. किसी वर्ड डाकुमेंट को _____ देकर सेव किया जा सकता है।
 (1) फाइल (2) वर्ड (3) फोल्डर (4) प्रोजेक्ट (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.117. प्रत्येक एक्सेल शीट का एक रेफरन्स नाम होता है जो वर्कबुक के बॉटम पर _____ पर दिखता है।
 (1) नेम इंडिकेटर (2) ऐक्टिव टैब (3) टाइटल टैब (4) शीट टैब (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.118. उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसमें बिना किसी निर्देश के वैल्यू या सेटिंग का चयन आटोमैटिकली होता है ?
 (1) आइकन (2) यूजर फ्रेंडली (3) CPU (4) पेरिफरल (5) डिफाल्ट
- प्र.119. की बोर्ड पर निम्नलिखित में से कुंजियों (Keys) का कौनसा कॉम्बिनेशन समग्र डाक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकता है ?
 (1) CTRL + A (2) ALT + F5 (3) SHIFT + A
 (4) यह नहीं किया जा सकता है (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य
- प्र.120. टेक्स्ट डाकुमेंट की दो लाइनों के बीच छोड़े गए वर्टिकल स्पेस को _____ कहते हैं।
 (1) डबल स्पेस (2) लाइन स्पेसिंग (3) सिंगल स्पेस
 (4) वर्टिकल स्पेसिंग (5) दिए गए विकल्पों को छोड़कर अन्य

- Q.105.** A system/disk content that cannot be changed or erased by the user is called —
 (1) memory-only (2) write-only memory (3) buy-ready memory
 (4) run-only memory (5) read-only memory
- Q.106.** Working together in cooperation on a document with other excel users is called —
 (1) sharing (2) merging (3) collaborating
 (4) routing (5) Other than those given as options
- Q.107.** Softwares which make the operating system compatible with peripheral devices, such as monitors, printers, and scanners are called —
 (1) drivers (2) utilities (3) interfaces (4) managers (5) activators
- Q.108.** A program currently operational and allowing the user to continue other tasks is said to be running in the —
 (1) user session (2) kernel (3) background (4) foreground (5) backstage
- Q.109.** The _____ button on the Quick Access Toolbar allows you to cancel your last command but retaining the previous status of the file.
 (1) Search (2) Cut (3) Document (4) Undo (5) Other than those given as options
- Q.110.** A system that connects two devices without the use of cables is called —
 (1) distributed system (2) wireless system (3) centralized system
 (4) open source system (5) scattered system
- Q.111.** Each small rectangle in a spreadsheet representing intersection point of a column and row is called a —
 (1) tab (2) cell (3) box (4) range (5) Other than those given as options
- Q.112.** To enter a page number in a header, click the _____ button on the Insert tab.
 (1) Display Number (2) Add Page Number
 (3) Header Numbering (4) Insert Page Number
 (5) Other than those given as options
- Q.113.** If you type a word that does not match WORD's dictionary, a _____ wavy underline appears below the word.
 (1) red colour (2) green colour (3) blue colour
 (4) black colour (5) Other than those given as options
- Q.114.** A Computer Program which is capable of restricting functionality of your computer system is called —
 (1) disease (2) torpedo (3) hurricane
 (4) virus (5) Other than those given as options
- Q.115.** A(n) _____ allows sharing of a broadband Internet connection.
 (1) hub (2) adapter (3) router (4) switch (5) plug
- Q.116.** A word document can be saved by giving it a —
 (1) file (2) word (3) folder (4) project (5) Other than those given as options
- Q.117.** Each excelsheet has a reference name that appears on the _____ at the bottom of the workbook.
 (1) name indicator (2) active tab (3) title tab
 (4) sheet tab (5) Other than those given as options
- Q.118.** A value or setting that a programme automatically selects without giving any specification is called —
 (1) icon (2) user friendly (3) CPU (4) peripheral (5) default
- Q.119.** Which combination of the following keys on the key board can select the entire document ?
 (1) CTRL + A (2) ALT + F5 (3) SHIFT + A
 (4) Cannot be done (5) Other than those given as options
- Q.120.** The vertical space left between two lines of a text document is called —
 (1) double-space (2) line spacing (3) single space
 (4) vertical spacing (5) Other than those given as options

Q. FORM NO : 333 (RIGHT ANSWERS)

Q. No.	Response	Q. No.	Response	Q. No.	Response	Q. No.	Response
1	: 4	51	: 2	101	: 1	151	:
2	: 4	52	: 1	102	: 5	152	:
3	: 3	53	: 5	103	: 1	153	:
4	: 5	54	: 1	104	: 2	154	:
5	: 5	55	: 3	105	: 5	155	:
6	: 3	56	: 5	106	: 3	156	:
7	: 2	57	: 5	107	: 1	157	:
8	: 5	58	: 2	108	: 3	158	:
9	: 4	59	: 1	109	: 4	159	:
10	: 3	60	: 3	110	: 2	160	:
11	: 5	61	: 5	111	: 2	161	:
12	: 1	62	: 1	112	: 4	162	:
13	: 1	63	: 4	113	: 1	163	:
14	: 1	64	: 1	114	: 4	164	:
15	: 4	65	: 2	115	: 3	165	:
16	:	66	: 5	116	:	166	:
17	: 3	67	: 1	117	: 4	167	:
18	: 3	68	: 5	118	: 5	168	:
19	: 1	69	: 3	119	: 1	169	:
20	: 5	70	: 1	120	: 2	170	:
21	: 3	71	: 3	121	:	171	:
22	: 1	72	: 2	122	:	172	:
23	: 1	73	: 2	123	:	173	:
24	: 5	74	: 4	124	:	174	:
25	: 4	75	: 2	125	:	175	:
26	: 4	76	: 4	126	:	176	:
27	: 1	77	: 2	127	:	177	:
28	: 2	78	: 4	128	:	178	:
29	: 3	79	: 3	129	:	179	:
30	: 4	80	: 5	130	:	180	:
31	: 1	81	: 4	131	:	181	:
32	: 3	82	: 2	132	:	182	:
33	: 4	83	: 4	133	:	183	:
34	: 5	84	: 1	134	:	184	:
35	: 4	85	: 5	135	:	185	:
36	: 1	86	: 3	136	:	186	:
37	: 4	87	: 3	137	:	187	:
38	: 5	88	: 1	138	:	188	:
39	: 4	89	: 5	139	:	189	:
40	: 2	90	: 3	140	:	190	:
41	: 3	91	: 5	141	:	191	:
42	: 1	92	: 1	142	:	192	:
43	: 5	93	: 2	143	:	193	:
44	: 3	94	: 3	144	:	194	:
45	: 2	95	: 4	145	:	195	:
46	: 5	96	: 5	146	:	196	:
47	: 3	97	: 2	147	:	197	:
48	: 4	98	: 4	148	:	198	:
49	: 5	99	: 1	149	:	199	:
50	: 3	100	: 5	150	:	200	:

Blank space, if any against Q. no. means the Question is dropped and marks added to candidates score i.e. credit given to all the candidates for the dropped question(s).